

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय, पांवटा साहिब सिरमौर (हि.प्र.)

महाविद्यालय की स्थापना परिचय एवं उपलब्धियां

सिक्खों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली में यमुना नदी के तट पर बसे सुरम्य, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक केंद्र पांवटा साहिब में स्थित इस महाविद्यालय की स्थापना 13 नवंबर 1994 को हुई। आज इस महाविद्यालय की शैक्षणिक योग्यता के 23 वर्ष पूर्ण होने को है।

इस विकास यात्रा में महाविद्यालय ने शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में न केवल सिरमौर में बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इस वर्ष नैक प्रत्यायन की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के क्रम में महाविद्यालय में सत्र 2016-17 का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन ना हो सका।

इस सत्र में ही महाविद्यालय प्रांगण पूर्ण रूप से सी.सी.टी.वी.कैमरों से युक्त किया गया तथा परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु परीक्षा भवन में भी सी.सी.टी.वी.कैमरे लगवाए गए। शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के पुस्तकालय को पूर्ण रूप से वातानुकूलित बनाया गया है। इस वर्ष महाविद्यालय में एम.ए.अंग्रेजी, एम.कॉम कोर्स भी संचालित हुए।

यह महाविद्यालय सिरमौर जिला का पहला ऐसा महाविद्यालय है, जहाँ इस वर्ष 43000/-की राशि द्वारा हर्बल गार्डन का निर्माण करवाया गया। साथ ही 40000 की राशि खर्च करके वर्मी कंपोस्ट संयंत्र लगाया गया जिसके माध्यम से लगभग 100 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) तैयार हुई जिसे हर्बल गार्डन और बोटैनिकल गार्डन में प्रयुक्त किया गया। इसी वर्ष लगभग 30000/- की राशि द्वारा लगभग 200 पौधे महाविद्यालय प्रांगण में लगाए गए।

शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्वीकृत पदों की स्थिति

किसी भी शिक्षण संस्थान की उपलब्धियां शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों पर निर्भर करती हैं। दोनों की सामान सहयोग व संचालनसे शिक्षण संस्था का विकास संभव हो सकता है

क्रम संख्या	विषय / पदनाम	विषय	स्वीकृत पद	पद स्थिति			रिक्त पद
				नियमित	अनुबंध	पी.टी.ए.	
1	प्राचार्य		1	1	-	-	-
2	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	वनस्पति विज्ञान	2	2	-	-	-
3	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	रसायन विज्ञान	3	1	1	1 (लोकल पी.टी.ए.)	1
4	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	वाणिज्य	3	2	1	-	-
5	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	अर्थशास्त्र	2	1	1	-	-
6	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	अंग्रेजी	3	3	-	-	-
7	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	भूगोल	1	1	-	-	-
8	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	हिंदी	1	-	-	-	1
9	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	इतिहास	1	-	1	-	-
10	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	गणित	2	1	-	-	1
11	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	संगीत वादन	1	1	-	-	-
12	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	संगीत गायन	1	1	-	-	-
13	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	शारीरिक शिक्षा	1	-	1	-	-
14	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	भौतिक विज्ञान	2	2	-	-	-

15	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	राजनीति विज्ञान	1	1	-	-	-
16	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	लोक प्रशासन	1	-	1	-	-
17	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	संस्कृत	1	1	-	-	-
18	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	समाजशास्त्र	1	1	-	-	-
19	सह-आचार्य / सहायक आचार्य	जंतु विज्ञान	2	2	-	-	-
20	अधीक्षक(श्रेणी II)		1	1	-	-	-
21	वरिष्ठ सहायक		1	1	-	-	-
22	लिपिक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक(आई.टी.)		2	-	-	-	-
23	सेवादार		7	-	-	-	-
24	पुस्तकालयाध्यक्ष		1	1	-	-	-
25	वरिष्ठ व्याख्याता सहायक (एस.एल.ए.)		2	2	-	-	-
26	कनिष्ठ व्याख्याता सहायक(जे.एल.ए.)		3	-	-	-	3
27	प्रयोगशाला- सहायक		2	1	-	-	1
28	जीव संग्रहक		1	1	-	-	-
29	तबला वादक		1	-	-	-	1
	कुल स्वीकृत पद		51	-	-	-	-

स्ववित्तपोषित विभाग (सूचना-तकनीकी)

सूचना तकनीकी विभाग स्ववित्तपोषित आधार पर गत 12 वर्षों से कार्यरत है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति नितांत अस्थाई रूप से की जाती है। पदों की स्थिति निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	विषय / पदनाम	भरे हुए पद(अस्थायी)
1	शैक्षणिक पद	3
2	प्रयोगशाला सहायक	1
3	सेवादार	1
4	सफाई कर्मचारी	1
	कुल	6

सामुदायिक महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित)

यूजीसी प्रायोजित सामुदायिक महाविद्यालय योजना के तहत अस्थाई नियुक्तियां इस प्रकार हैं-

क्रम संख्या	विषय / पदनाम	भरे हुए पद(अस्थायी)
1	शैक्षणिक पद	2
2	प्रयोगशाला सहायक	1
3	सेवादार	1
	कुल	4

विद्यार्थी पंजीकरण			
प्रोग्राम का नाम	उपलब्ध सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पंजीकृत विद्यार्थी
बी.ए.	ओपन सीट	859	859
बी.एस.सी.	ओपन सीट	544	544
बी.कॉम	ओपन सीट	367	367
बीसीए	50	91	91
पीजीडीसीए	50	27	27
यू.जी.डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग	50	24	24
यूजी डिप्लोमा इन फर्मास्यूटिकल्स	50	12	12
यू.जी.एडवांस डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग	50	26	26
यू.जी. एडवांस डिप्लोमा इन फर्मास्यूटिकल्स	50	10	10
एम.ए.	20	5	5
एम. कॉम.	20	25	20

उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत

प्रोग्राम कोड	प्रोग्राम का नाम	अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या	अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या
बी.ए. - ECONA	बी.ए. अर्थशास्त्र	36	35
बी.ए. - ENG	बी.ए. अंग्रेजी	6	6
बी.ए. - GEOGP	बी.ए. भूगोल	12	12
बी.ए. - HIND	बी.ए. हिंदी	38	37
बी.ए. - HIST	बी.ए. इतिहास	37	37
बी.ए. - MATH	बी.ए. गणित	7	7
बी.ए. - MUSA	बी.ए. संगीत	4	4
बी.ए. - PED	बी.ए. शारीरिक शिक्षा	9	8
बी.ए. - POLS	बी.ए. राजनीति विज्ञान	36	36
बी.ए. - PUBA	बी.ए. लोक प्रशासन	13	13
बी.ए. - SOCL	बी.ए. समाजशास्त्र	9	9
बी.कॉम	बी.कॉम वाणिज्य	96	96
बी .एस.सी.- BOTA	बी .एस.सी.- वनस्पति विज्ञान	10	10
बी .एस.सी.- CHEM	बी .एस.सी.- रसायन विज्ञान	51	51
बी .एस.सी.- MATH	बी .एस.सी.- गणित	39	39
बी .एस.सी. – PHYS	बी .एस.सी.- भौतिक विज्ञान	38	37
बी .एस.सी. – ZOOL	बी .एस.सी.- जीव विज्ञान	16	16
बी सी ए	बी सी ए	23	21
पी जी डी सी ए	पी जी डी सी ए	21	17

एम.ए. अर्थशास्त्र	एम.ए. अर्थशास्त्र	0	0
एम.ए. अंग्रेजी	एम.ए. अंग्रेजी	0	0
एम.ए. हिंदी	एम.ए. हिंदी	0	0
एम.ए. राजनीति विज्ञान	एम.ए. राजनीति विज्ञान	0	0
एम. कॉम.	एम. कॉम.	0	0
	कुल विद्यार्थी	501	491
उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 2016-17		98.00	

छात्रवृत्तियाँ

वर्ष	श्रेणी	सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए विद्यार्थियों की संख्या एवं राशि	
		विद्यार्थी संख्या	राशि
2016-17	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	17	255000
	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम	17	74800
	अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम	16	56000
	आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम	30	36000
	डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना	0	0

पुस्तकालय						
पुस्तकालय स्वचालन (इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम -आई.एल. एम.एस.)						
ILMS सॉफ्टवेयर का नाम		पूर्ण स्वचालित(फुल ऑटोमेशन)		संस्करण	पुस्तकालय स्वचालन वर्ष (लाइब्रेरी ऑटोमेशन वर्ष)	
SOUL 2.0		पूर्ण		2.0	2012	
पुस्तकालय सुविधा:						
	पहले से उपलब्ध पुस्तकें		नई पुस्तकें		कुल	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
मूल पुस्तकें	7423	1043391	545	151042	7968	1194433
संदर्भ पुस्तकें	670	438210	14	12035	684	450245
ई-पुस्तकें	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
जर्नल	Nil	Nil	08+N-list	15624	08+NLIST	15264
ई-जर्नल	Nil	Nil	N-List	Nil	NLIST	NIL
डिजिटल डाटाबेस	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

सी.डी.वीडियो	25	8475	Nil	Nil	25	8475
लाइब्रेरी ऑटोमेशन	8652	Nil	Nil	Nil	8652	Nil
वीडिंग(हार्ड और सॉफ्ट)	04	1672	12	1836	5+11	3508
अन्य(विशेष)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

प्राध्यापक वर्ग की उपलब्धियां

1. असिस्टेंट प्रोफेसर अमिता जोशी ने एस. सी.ई.आर.टी .सोलन में मई 2017 को 10+2 के प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में स्त्रोतविद् के रूप में 'हाइब्रिडडाइजेशन' विषय पर व्याख्यान दिया
2. एसोसिएट प्रोफेसर डॉ विवेक नेगी ने दिनांक 11.7.2016 को आई.सी.एस.एस.आर. प्रायोजित 'मेक इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।
डॉ विवेक नेगी ने दिनांक 4.11.2016 से दिनांक 5.11.2016 तक इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र करनाल में अकादमिक काउंसलर MEG के लिए दो दिवसीय उन्मुखीकरण में भाग लिया।
डॉ विवेक नेगी ने 28.3.2017 से 29.3.2017 तक 'डिमॉनेटाइजेशन इफेक्ट ऑनइकोनॉमी कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिस' विषय आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया ।
3. असिस्टेंट प्रोफेसर देविन्द्रा गुप्ता ने 17.11.2016 से 28.11.2016 तक ईटीसी आईडीसी चंडीगढ़ द्वारा एन.एस.एस. ऑफिसर्स के लिए संचालित साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
4. प्रोफेसर स्वाति चौहान ने 20.02.2017 से 04.03.2017 तक जी सी टी ई धर्मशाला में आयोजित इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया।
5. अप्रैल 2017 में कुंदन शर्मा का शोध पत्र जनरल ऑफ केमिकल एंड इंजीनियरिंग (डाटा अमेरिकन केमिकल सोसायटी पब्लिशर) में प्रकाशित हुआ।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ कार्यक्रम अधिकारी डॉ अरुणदीप चौधरी और असिस्टेंट प्रोफेसर रीना चौहान के निर्देशन में कार्यरत हैं। सत्र 2016-17 में इकाई में कुल 237 स्वयंसेवक पंजीकृत हैं। इस सत्र का सात दिवसीय शिविर 5 फरवरी 2017 से 11 फरवरी 2017 तक महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इकाई की वार्षिक गतिविधियां इस प्रकार रहीं-

1. 06.08.2016 -शारीरिक गतिविधि-वृक्षारोपण हेतु गड्डे खोदे गए और कॉलेज मैदान से कांग्रेस घास हटाई गई।

कुल स्वयंसेवक-50

2. 10.08.2016-शारीरिक गतिविधि-स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 35 वृक्ष लगाए गए।

कुल स्वयंसेवक-35

3. 12.08.2016-शैक्षणिक सत्र और शारीरिक सत्र- प्राचार्य द्वारा संबोधनऔर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी द्वारा "स्वच्छता अभियान" पर व्याख्यान कॉलेज के मैदान से खरपतवार हटाना

कुल स्वयंसेवक-166

4. 17.08.2016 रक्षा बंधन- मेहंदी प्रतियोगिता

कुल स्वयंसेवक-23

5. 20.08.2016- स्वतंत्रता पखवाड़ा- पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, कोलाज मेकिंग, निबंध लेखन और कले मॉडलिंग प्रतियोगिताएं

कुल स्वयंसेवक-22

6. 22.08.2016- "याद करो कुर्बानी" पर भाषण प्रतियोगिता

कुल स्वयंसेवक-41

7. 27.08.2016-वनीकरण- वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण

कुल स्वयंसेवक-18

8. 18.09.2016- एक दिवसीय शिविर -महाविद्यालय परिसर की सफाई,

कुल स्वयंसेवक-88

9. 24.09.2016- एन.एस.एस. दिवस -महाविद्यालय भवन व मेन गेट के पीछे की ओर से घास हटाना। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रो. अमिता जोशी द्वारा प्रेरणास्पद व्याख्यान

कुल स्वयंसेवक-114

10. 18.10.2016- मेहंदी प्रतियोगिता -मेहंदी प्रतियोगिता और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा छात्रों के बीच उत्सव के दौरान फैलते प्रदूषण के बारे में जागरूकता

कुल स्वयंसेवक-25

11. 02.12.2016 -स्वच्छता शिविर- एनएसएस कक्ष की सफाई

कुल स्वयंसेवक- 10

12. 25.12.2016- एक दिवसीय शिविर -परिसर और खेल के मैदान की सफाई

कुल स्वयंसेवक-78

13. 09.12.2016- एक दिवसीय शिविर परिसर और खेल के मैदान की सफाई

कुल स्वयंसेवक- 73

14. 04.02.2017- एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का समापन-शिविर में योग अभ्यास, शारीरिक गतिविधि स्वच्छता अभियान और एलपीजी सावधानिया, प्रदूषण नियंत्रण, बेटी बचाओ जैसे समाज के समसामयिक मुद्दों के बारे में स्वयंसेवकों को जागरूक करने के लिये तकनीकी सत्रों का आयोजनऔर सांस्कृतिक गतिविधियां।

कुल स्वयंसेवक-122

15. 26.02.2017 सांप्रदायिक सद्भाव

16. 25.03.2017- एक दिवसीय शिविर -नैक टीम के आगमन के दौरान स्वच्छता महाविद्यालय परिसर और भवन की सफाई।

कुल स्वयंसेवक-76

शारीरिक गतिविधियां

छात्र पंकज कुमार को 5000 मीटर एचपीयू इंटर कॉलेज एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और 1500 मीटर नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त हुआ।

रोवर रेंजर यूनिट

महाविद्यालय में रोवर रेंजर इकाई प्रोफेसर मोहन सिंह नेगी और प्रोफेसर सीमा त्यागी के निर्देशन में संचालित है। इकाई में कुल 48 विद्यार्थी पंजीकृत हैं जिसमें 24 रेंजर्स हैं और 24 रोवर्स हैं। दिनांक 20.08.2016 को इकाई द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में स्थित मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया।

विशेष पुरस्कार (गौरव और दक्ष)

सत्र 2016-17 में महाविद्यालय के सर्वोत्कृष्ट छात्र- छात्रा को 'गौरव' और 'दक्ष' पुरस्कार से सम्मनित किया जाता है। सत्र 2016 -17 का गौरव पुरस्कार छात्र वर्ग में रोहित बंगवाल और छात्रा वर्ग में सोनाली को प्रदान किया गया। इस सत्र का दक्ष पुरस्कार प्रियंका को पी.जी.डी. सी.ए.की कक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया।

केंद्रीय छात्र परिषद

इस सत्र में केंद्रीय छात्र परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ना होकर मेरिट के आधार पर किया गया। वर्ष 2016-17 में सोनाली अध्यक्ष, जियाक्षी उपाध्यक्ष, बबली देवी सचिव और नगमा संयुक्त सचिव चुने गए।

इग्नू (IGNOU)

इस सत्र में इग्नू केंद्र प्रो. नलिन रमोल के निर्देशन में चल रहा है। इस सत्र में कुल पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या 1286 है।

शिक्षक अभिभावक संघ

सत्र 2016-17 में शिक्षक अभिभावक संघ की कार्यकारिणी में शगुन महिंद्रा अध्यक्ष, श्यामा देवी उपाध्यक्ष और नरेश बत्रा का सचिव पद के लिए चयन किया गया।

वार्षिक पत्रिका ' भानुजा '

इस सत्र में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'भानुजा' का प्रकाशन असिस्टेंट प्रोफेसर देविन्द्रा गुप्ता के संपादन में हुआ।

विकासात्मक गतिविधियां

- वर्ष के दौरान विभागों का एस.डब्ल्यू.ओ.सी (SWOC) विश्लेषण पूरा किया गया।
- 12.12.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया।
- नए शैक्षणिक ब्लॉक की नींव माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा 12.12.2016 को रखी गई ।
- जनवरी, 2017 के दौरान महाविद्यालय परिसर में नियंत्रण कक्ष में एलसीडी टीवी के साथ 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
- सुरक्षित पेयजल के लिए आरओ सिस्टम लगाया गया ।
- कॉलेज के प्रशासनिक ब्लॉक के ऊपरी तल पर गर्ल्स कॉमन रूम उपलब्ध कराया गया । गर्ल्स कॉमन रूम पीटीए फंड के माध्यम से सुसज्जित किया गया ।
- आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने दिनांक 20.03.2017 को अग्निशमन सेवा विभाग के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल का आयोजन किया।
- नवंबर, 2016 के दौरान नैक प्रत्यायन के लिए आशय पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया।
- नैक पीयर टीम ने 27.03.2017 और 28.03.2017 को कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज को बी ++ ग्रेड के साथ मान्यता दी।
- सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन दिनांक 04.03.2017 को खरीदी गई और गर्ल्स कॉमन रूम में स्थापित की गई।
- 16.03.2017 को एक हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्टर सोनी सीएच 375 खरीदा गया और कॉलेज के बीसीए लैब में स्थापित किया गया।
- बीए/बीएससी/बीकॉम छठा सत्र, कम्युनिटी कॉलेज और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के छात्रों के लिए मेंटर -मेंटी सिस्टम सफलतापूर्वक पूरा किया गया।